



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 528]

नई दिल्ली, रविवार, नवम्बर 29, 1981/अग्रहायण 8, 1903

No. 528]

NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 29, 1981/AGRAHAYANA 8, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह दस्तावेज सफलता के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1981

का० आ० 833(अ) :--प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, देना बैंक के अनुरोध पर 29 नवम्बर, 1981 से गुजरात राज्य में "बनासकांठा-मेहसाणा ग्रामीण बैंक" के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि गुजरात राज्य के बनासकांठा-मेहसाणा जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एक० 1-36/80-प्रार० प्रार० बी० (1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th November, 1981

S.O. 833(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Dena Bank, establishes, with effect from the

1008 GI/81

29th November 1981 a Regional Rural Bank in the State of Gujarat under the name of Banaskantha-Mehsana Gramin Bank which will operate within the local limits of the districts of Banaskantha and Mehsana in the State of Gujarat.

[No. F. 1-36/80-RRB (I)]

का०आ० 834 (अ) :--प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बनासकांठा-मेहसाणा ग्रामीण बैंक के प्राथमिक देना बैंक से परामर्श करके, मेहसाणा जिले में पाटण को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर बनासकांठा-मेहसाणा ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एक० 1-36/80-प्रार० आ० बी० (II)]

S.O. 834(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Dena Bank, by which Banaskantha-Mehsana Gramin Bank has been sponsored, specifies Patan in the district of Mehsana as the place where Banaskantha-Mehsana Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-36/80-RRB (II)]

का०आ० 835 (अ) :--भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (iii) के अनुसार में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, बनासकांठा मेहसाणा ग्रामीण बैंक, पाटण को प्रादेशिक

(1453)

प्रार्थना बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था का रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्य. एफ० 1-36/89-अ.र० आर० बी० (III)]

वी० के० दीक्षित, सचिव

S.O. 835(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said sub-clause, Banaskantha-Mehsana Gramin Bank, Patan being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-36/80-RRB (III)]

V. K. DIKSHIT, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

(ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष)

अधिसूचना

बम्बई, 29 नवम्बर, 1981

का०आ० 836(अ) — भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
(1934 का 2) का धारा 42 का उपधारा (6) के खण्ड (क) के

अनुसूचना स भाग्यता रिज्ड गैर एतद्द्वारा निर्देशित है कि उक्त अधि-
नियम को दूसरी अनुसूची स निम्नानुसार बैंक का समाविष्ट किया जाये,
अर्थात् -

‘बनासकाटा-मेष्ट्रमाणा ग्रामीण वैक, पाटण (गुजरात)

[गारुड्यांमि संक्षेपसूत्रा २३/अष्टादश पाद/३११-८१]

११० वीं हाटे, - नेपालक निदणह

RESERVE BANK OF INDIA

(Rural Planning and Credit Cell)

NOTIFICATION

Bombay, the 29th November, 1981

S.O. 836(E). In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India, Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following Bank, namely :—

“Banaskantha-Mehsana Gramin Bank, Patan (Gujarat)”

[RPCC No. 220/INCL/311-81]

M. V. HATE, Executive Director